

अन्तर्राज्यीय 02 मादक पदार्थ तस्करो को थाना कटरा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

लगभग डेढ करोड रुपये कीमत की स्मैक (हेरोइन) बरामद ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, अन्तर्राज्यीय 02 मादक पदार्थ तस्करो को गिरफ्तार कर, लगभग डेढ करोड रुपये कीमत की स्मैक (हेरोइन) बरामद की ।

दिनांक 19.10.20 की रात्रि हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक कटरा पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व जुर्म जरायम की रोकथाम, तलाश वांछित अपराधी मे भ्रमणशील थे, मुखबिर की सूचना पर समय करीब 19.55 बजे हुलास नंगला फाटक से पहले खम्बा फैक्ट्री के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभियुक्त 1.इबरान पुत्र सुल्तान खान निवासी पढेरा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली को 400 ग्राम स्मैक (हेरोइन) 2. सलीम पुत्र अनवर निवासी गढी जलालपुर थाना सनौली जिला पानीपत (हरियाणा) को 350 ग्राम स्मैक (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर मु0अ0सं0 509/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम इबरान उपरोक्त तथा मु0अ0सं0 510/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम सलीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया,थाना कटरा पर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण:-

- 1.इबरान पुत्र सुल्तान खान निवासी पढेरा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली
2. सलीम पुत्र अनवर निवासी गढी जलालपुर थाना सनौली जिला पानीपत (हरियाणा)

बरामदगी का विवरण:-

1. 400 ग्राम स्मैक (हेरोइन) अभियुक्त इबरान से
2. 350 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद अभियुक्त सलीम
- 3.एक मोटर साइकिल HF डीलेक्स बिना नंबर (इन्जन नं0 HA11ENKNF16557 व चेसिस नं0 MBLHAW029KHF07104)

कुल 750 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत लगभग डेढ करोड रुपये ।

आपराधिक इतिहास:-

1. इबरान पुत्र सुल्तान खान निवासी पढेरा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली
मु0अ0सं0 509/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0
2. सलीम पुत्र अनवर निवासी गढी जलालपुर थाना सनौली जिला पानीपत (हरियाणा)
मु0अ0सं0 510/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. SHO हरपाल सिंह बालियान थाना कटरा जनपद शाह0
2. उ0नि0 श्री परमित कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
3. का0 22 कपिल सैनी थाना कटरा जनपद शाह0
4. का0 1831 जितेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
5. का0 1803 विपिन कुमार थाना कटरा जनपद शाह0

